



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

4 फाल्गुन 1936 (श०)  
(सं० पटना 328) पटना, सोमवार, 23 फरवरी 2015

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

19 फरवरी 2015

सं० 3/एम०-32/2013सा०प्र०-2691—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में सेवानिवृत्त एवं सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी सेवकों की सेवायें संविदा के आधार पर लिए जाने हेतु इस विभाग का संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 निर्गत है। संकल्प की कंडिका-4, में वैसे पदों को रखा गया है जिनपर सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को, संविदा के आधार पर, संकल्प के प्रावधान के तहत, नियोजित किया जा सकता है।

2. संकल्प की कंडिका-6 के प्रावधान के तहत कुछ अन्य पदों को, विभागीय आदेश संख्या-11338 दिनांक 09.07.2013; आदेश संख्या-12951 दिनांक 06.08.2013; आदेश संख्या-16599 दिनांक 21.10.2013; आदेश संख्या-19813 दिनांक 31.12.2013, आदेश संख्या-6567 दिनांक 20.05.2014, आदेश संख्या- 9961 दिनांक 21.07.2014, आदेश संख्या-13194 दिनांक 22.09.2014 एवं आदेश संख्या-518 दिनांक 12.01.2015 के द्वारा, संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किया जा चुका है।

3. उक्त के उपरांत कुछ अन्य विभागों से प्राप्त अनुरोध पर सम्यक् विचारोपरांत निम्न पदों को संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए उक्त संकल्प की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने का निर्णय लिया गया है—

क्रमांक	विभाग का नाम	संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित पद।
1.	सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय	बिहार सचिवालय सेवा के उप-सचिव एवं अवर सचिव का पद।

क्रमांक	विभाग का नाम	संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-4 में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित पद।
2.	अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग	अभियोजन निदेशालय, गृह विभाग के अधीन क्षेत्रीय अभियोजन कार्यालयों के लिपिक-सह-टंकक का पद।

4. उक्त पदों पर संविदा के आधार पर सेवाएँ लिए जाने के संबंध में संकल्प संख्या-2804 दिनांक 29.03.2010 की कंडिका-5 एवं उसमें निहित शर्त एवं प्रक्रिया लागू रहेंगी एवं उक्त आलोक में इन पदों पर सेवायें लिए जाने के संबंध में प्रशासी विभागों द्वारा ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

आदेश से,  
अनिल कुमार,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 328-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>